



॥ ओ३म् ॥

युवा उद्घोष

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् (पंजीकृत) का पाक्षिक शंखनाद

Join—<http://www.facebook.com/groups/aryayouth/>

कार्यालय : आर्य समाज कबीर बस्ती, दिल्ली-110007, चलभाष : 9810117464, 9868051444

15 देश एक मंच पर
अन्तर्राष्ट्रीय
आर्य महावेबिनार
11,12 एवं 13 फरवरी 2022
Zoom or Facebook Live
पर अवश्य जुड़े।
लिंक के लिए अपना मोबाइल नम्बर 9810117464 भेजे

वर्ष-38 अंक-17 माघ-2078 दयानन्दाब्द 198 01 फरवरी से 15 फरवरी 2022 (प्रथम अंक) कुल पृष्ठ 4 वार्षिक शुल्क 48 रु.
प्रकाशित: 01.02.2022, E-mail : yuva.udghosh1982@gmail.com aryayouthgroup@yahoo.com Website : www.aryayuvakparishad.com

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् द्वारा कोरोना काल में भी 346वां वेबिनार सम्पन्न

‘आयुर्वेद से ओमिक्रोन से बचाव’ पर गोष्ठी सम्पन्न

नाक में दो बूंद तेल, गर्म पानी, हल्का भोजन रहेगा लाभकारी

—डॉ. मंजूषा राजगोपाला (विभागाध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान)

बुधवार 19 जनवरी 2022, केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के तत्वावधान में आयुर्वेद से ओमिक्रोन से बचाव विषय पर ऑनलाइन गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कोरोना काल में 340 वां वेबिनार था। मुख्य वक्ता डॉ. मंजूषा राजगोपाला (विभागाध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली) ने कहा कि यदि हमारी रोगप्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो ओमिक्रोन से मुकाबला किया जा सकता है। अनेको वायरस आते हैं लेकिन इम्युनिटी यदि सक्षम है तो व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नाक में सुबह शाम दो बार सरसो या अणु तेल डालें, गर्म पानी के गरारे, जीरा या अदरक उबाल कर गर्म पानी ही पिये तो ओमिक्रोन से बचाव हो सकता है। साथ ही हल्का पाचक भोजन करें उससे स्वस्थ रहने में सहायता मिलती है। योग व सूक्ष्म व्यायाम भी इम्युनिटी बढ़ाएगा। गर्म पानी की भाप भी लेते रहे। च्यवन प्राश या कोई रसायन भी लाभदायक है। हल्दी वाला गर्म दूध अत्यंत लाभकारी है यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे व पालन करेंगे तो स्वस्थ रह कर बीमारियों का सुगमता से मुकाबला कर सकते हैं। केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 425 वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वह हिन्दुत्व के प्रतीक रहे, उन्होंने कभी मुगलों की दासता स्वीकार नहीं की। राष्ट्रीय स्वाभिमान व गौरव के प्रतीक रहे। घास की रोटी खाई पर गुलामी नहीं कि। स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया आज की युवा पीढ़ी को उनके त्याग, बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्य अतिथि डॉ. धर्मवीर आर्य ने आयुर्वेद की महत्ता पर बल दिया। अध्यक्ष कमाण्डर पी सी बक्शी ने आभार व्यक्त करते हुए स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय मंत्री प्रवीण आर्य ने कहा कि बाबा रामदेव जी ने आयुर्वेद का सम्मान बढ़ाया है।



‘ओमिक्रोन में पोषण’ पर गोष्ठी सम्पन्न

ओमिक्रोन से मुकाबले के लिए इम्युनिटी मजबूत बनाये —प्रो. करुणा चांदना

सोमवार 17 जनवरी 2022, केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के तत्वावधान में ‘ओमिक्रोन महामारी में पोषण’ विषय पर ऑनलाइन गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कोरोना काल में 339 वां वेबिनार था। मुख्य वक्ता प्रो. करुणा चांदना ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हमें अपनी इम्युनिटी मजबूत करना बहुत आवश्यक है। कोविड महामारी की दूसरी लहर के जानलेवा प्रभावों ने हमें इतना संवेदनशील बना दिया है और अब तीसरी लहर ओमिक्रोन वेरिएंट के नाम से आ चुकी है जिससे कि सारे विश्व स्तर पर एक बार फिर खलबली मच गई है। ऐसे में अधिक समय बर्बाद ना करते हुए आइए शरीर को मजबूत बनाएं तथा प्रभावशाली ढंग से वायरस से लड़ने के लिए कमर कस लें तभी हम महामारी से निजात पा सकते हैं। हालांकि कोविड से जूझना इतना आसान नहीं है लेकिन अगर समय रहते आहार में बदलाव संतुलित आहार पौष्टिक आहार लिया जाए तो इम्युनिटी को बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के समय रोगियों की फेफड़े हृदय एवं श्वसन प्रणाली बहुत अधिक प्रभावित हुई थी इसलिए अब सब डरे हुए हैं और किसी भी कीमत पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तत्पर हैं क्योंकि इम्युनिटी शरीर की बिगड़ती स्थिति को पुनः जीवित करती है तथा शारीरिक तंत्र को वायरस से लड़ने में मदद करती है। इस सब के लिए आहार में विविधता लानी जरूरी है और विविधता गुणवत्ता से लाई जा सकती है इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है की हमारी प्लेट कलरफुल या रेनबो प्लेट होनी चाहिए यानी जिसमें सारे पौष्टिक तत्व शामिल होने चाहिए जैसे ताजे फल सब्जियां जिनसे विभिन्न विटामिंस मिलते हैं पर सबसे जरूरी विटामिन सी और डी का इस समय बहुत महत्व है इसके अलावा खनिजों में कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम और जिंक सबसे महत्वपूर्ण है दूसरे पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, कैलोरी तथा तृणधान्य प्लेट में शामिल होने चाहिए। तरल पदार्थों का सेवन, प्राकृतिक एंटीवायरल फूड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का कोविड-19 में बहुत महत्व है। इतना ही नहीं इसके साथ जीवन शैली में बदलाव साउंड स्लीप, रेस्पिरेट्री एक्सरसाइजेज भी दिनचर्या में शामिल की जानी चाहिए। अगर आप यह सब कुछ करते हैं तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य ने कहा कि शरद ऋतु में पाचन शक्ति अच्छी होती है यदि पोषक आहार लेंगे तो इम्युनिटी मजबूत कर रोगों से बचाव कर सकते हैं। मुख्य अतिथि रविन्द्र आर्य व राजेश मेहंदीरत्ता ने भी स्वास्थ्य रक्षा पर बल दिया। राष्ट्रीय मंत्री प्रवीण आर्य ने बताया कि नियमित योगाभ्यास रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है साथ ही पानी पीने की मात्रा को एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन व्यक्ति के वजन को 20 से भाग देने पर जो उत्तर आए उतना पानी सुबह से शाम तक पीना चाहिए, पानी शरीर में ट्रान्सपोर्ट का कार्य करता है, आज पानी कम पीने की वजह से एसिडिटी आदि अनेकों व्याधियों से घिरे रहते हैं, अतः एल्कालाइन व अधिकतम 250 टीडीएस का पानी उपरोक्त मात्रा में पीकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। गायक रविन्द्र गुप्ता, कमलेश चांदना, रचना वर्मा, रजनी चुध, सुशांता अरोड़ा, रजनी गर्ग, कैप्टन अशोक गुलाटी, किरण सहगल, सुष्मा गुगलानी, रीता जयहिंद, प्रवीणा ठक्कर आदि के मधुर गीत हुए। आर्य नेता, शिक्षाविद मनोहर लाल चावला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया।



RIG VEDA INVITATION **YAJUR VEDA**

KENDRIYA ARYA YUVAK PARISHAD, NEW DELHI
(ESTD. 3 JUNE 1978) (Regd)

ON THE OCCASION OF ITS 44th ANNUAL FUNCTION





INTERNATIONAL ARYA MAHA-WEBINAR

DATE:- 11, 12 & 13 FEBRUARY 2022
(FRIDAY, SATURDAY & SUNDAY)

ENLIGHTENING SESSIONS AND LECTURES BY
SCHOLARS AND DIGNITARIES OF ARYA SAMAJ

(Live Telecast on Zoom & Facebook) **LIVE**

YOU ALL ARE CORDIALLY INVITED TO THIS VEDIC EVENT

WWW.ARYAYUVAKPARISHAD.COM @AniAry32599939
ARYAYOUTHGROUPS@FBGROUPS @ARYAYUVAKFB
 ARYA YUVAK PARISHAD YUVA UDGHOSH
ARYAYOUTH@GMAIL.COM DKBHAGAT@GMAIL.COM

KAYP WELCOMES PARTICIPANTS FROM 15 COUNTRIES
INDIA, NEPAL, BANGLADESH, PAKISTAN, MAURITIUS, AUSTRALIA, AMERICA,
KENYA, CANADA, SPAIN, NETHERLANDS, HOLLAND, SOUTH AFRICA,
UGANDA, THAILAND

SAMA VEDA **ANIL ARYA:- 9810117464** **ATHARVA VEDA**

FRIDAY, 11th FEBRUARY 2022

SARVA KALYAN YAGYA
09:00 AM TO 10:00 AM (IST)




YAGYA BRAHMA:- ACHARYA AKHILESHWAR JI (HARIDWAR)

INTERNATIONAL ARYA WOMEN CONFERENCE
TOPIC:- WOMEN AND THEIR CONTRIBUTION IN ARYA SAMAJ

11:30 AM TO 2:00 PM (IST)






CHAIRPERSON **PREM HANS** (ARYA SAMAJ, AUSTRALIA)
CHIEF GUEST **BINDU KHATTER** (ARYA SAMAJ, AUSTRALIA)
CHIEF GUEST **DR. ANJU MEHROTRA** (KALKA GROUPS OF INSTITUTIONS)
SPECIAL GUEST **DR. RACHNA CHAWLA** (VEDIC SCHOLAR)






GUEST OF HONOUR **ARYA WATTEE BOOLAUKY** (D.D DAV COLLEGE, MAURITIUS)
CONVENOR **URMILA ARYA** (STATE PRESIDENT, ARYA YUVTI PARISHAD)
SPEAKER **AYUSHI RANA** (VEDIC SCHOLAR)
SPEAKER **VIMLESH BANSAL** (DARSHNACHARYA)

(DISTINGUISHED GUESTS)

SHRUTI SETIA **ARCHANA PUSHKARNA** **VINITA KHANNA**
KAMLESH HASIJA **RAJNI CHUGH** **KARUNA CHANDNA**
RAJNI GARG **CHANDERKANTA ARYA** **VEDPRABHA BAREJA**
GYATRI MEENA **SUNITA RASOTRA** **USHA AHUJA**
CHANDRA PRABHA ARORA **SUMAN GUPTA** **SHAKUNTLA NAGIA**

SWAR SANGEET :- SANGEETA ARYA 'GEET' & PUSHPA CHUGH
(2)

FRIDAY, 11th FEBRUARY 2022

ARYA MITRA MILAN SAMMELAN
04:00 PM TO 6:30 PM (IST)







CHIEF GUEST **AJAY SEHGAL** (C.E.O. PARYAGRAJ CANTT.)
CHAIRPERSON **SATYA BHUSHAN ARYA** (DISTRICT COURT JUDGE, SAMASTPUR)
PRESIDED BY: **NARENDER AHUJA 'VIVEK'** (CHANDIGARH)
SPECIAL GUEST **ACHARYA NARDEV YAJURVEDI** (ARYA SAMAJ, NETHERLANDS)






VOTE OF THANKS **YASHOVIR ARYA**
WELCOME SPEECH **ACH. MAHENDER BHAI**
ENCOURAGEMENT **DHARAMPAL ARYA**
SPECIAL GUEST **ANIL MITRA**

DISTINGUISHED SPEAKERS

RAM KUMAR SINGH
SUBHASH BABBAR
HARICHAND SANEHI
JITENDER SINGH ARYA
RAMKRISHAN SHASTRI
SAWTANTRA KUKREJA
SHANKER DEV ARYA
VEDPARKASH ARYA
MITRA MAHESH ARYA
GOVIND SINGH BHANDARI
SHAILESH MUNI
PRAKASH VEER SHASTRI
RAKESH BHATNAGAR
VARUN ARYA
DEVENDER GUPTA
ASHOK ARYA PANCHKULA
VIJAY ARYA, MOHALI

SURYADEV YOGACHARYA
SANTOSH SHASTRI
K.K. YADAV
YOGENDRA SHASTRI
ANAND PARKASH ARYA
ARUN ARYA, DELHI
HARSHDEV SHARMA
KRISHAN DEV KAUTILYA
BHANU PRATAP VEDALANKAR
DR. SUDHIR GUPTA
YASH PRIYA ARYA, MUMBAI
ACH CHANDER SHEKHAR SHARMA
DINESH SINGH ARYA
ARUN ARYA (JAMMU)
HARIOM SHASTRI
RAJENDER BEDI, USA
SUDHIR KAPOOR

YOGIRAJ VISHWAPAL JAYANT
DURGESH ARYA
SURESH ARYA
VIRENDRA AHUJA
ISH KUMAR ARYA
MAKENDRA KUMAR
YAGVEER CHAUHAN
OMVIR SINGH
VIKAS GOGIA
NAND KISHORE PASWAN
CHINKY ARYA
DEVENDRA ARYA
CAPT. ASHOK GULATI
GOPAL SHARMA
KASHI RAM RAJAK
K.L. RANA
MUKESH ABROL

(3)

SATURDAY, 12th FEBRUARY 2022

SARVA KALYAN YAGYA
09:00 AM TO 10:00 AM (IST)




YAGYA BRAHMA:- ACHARYA AKHILESHWAR JI (HARIDWAR)

MAHARISHI DAYANAND JANMOTSAV
TOPIC:- MAHARISHI DAYANAND VYAKTITVA AND KRITITATVA

11:30 AM TO 2:00 PM (IST)






KEYNOTE SPEAKER **SWAMI ARYAVESH JEE** (PRADHAN, SARVDESHIK SABHA)
SPEAKER **DR. BALBIR ACHARYA** (ARYA SAMAJ, AMERICA)
CHIEF GUEST **CHANDRABHAN ARYA** (ARYA SAMAJ, AMERICA)
SPECIAL GUEST **DR. AMARJEET SHASTRI** (NEW YORK)






SPECIAL GUEST **DR. RAJNI TELOR** (PRESIDENT, HINDU COUNCIL, SOUTH AFRICA)
SPECIAL GUEST **KARVMIR SOOD** (CMD, SUPREME CIRCUITS, INDIA)
SPEAKER **DR. SUSHMA ARYA** (DELHI, INDIA)
SPECIAL GUEST **RAJAN RAKHEJA** (DIRECTOR, PRECISIONTECH ENTERPRISES, INDIA)






VOTE OF THANKS **DURGESH ARYA** (RAJSHRIYA MANTRI, KAYP, INDIA)
BLESSINGS **YOGI VISHWA KETU** (YOG GURU, CANADA)
BLESSINGS **SUSHIL ARYA** (DELHI, INDIA)
BLESSINGS **DR. GAJRAJ SINGH** (FARIDABAD, INDIA)

(4)

SATURDAY, 12th FEBRUARY 2022

YUVA MAHOTSAV

04:00 PM TO 6:30 PM (IST)



TOPIC:- ARYA SAMAJ AUR YUVA SHAKTI

(DISTINGUISHED GUESTS)

				
CHAIRPERSON VISHWA MOHAN ARYA (ARYA SAMAJ, DUBAI)	CHIEF GUEST VIMAL CHADHA (NAIROBI, KENYA)	SPEAKER UPENDRA ARYA (YOGACHARYA, SPAIN)	SPEAKER DR. RAMDEV PANDIT (ARYA SAMAJ, NEPAL)	SPECIAL GUEST PANDIT NANK CHAND SHANAND (ARYA SAMAJ, SOUTH AFRICA)

(DISTINGUISHED SPEAKERS)

			
ARNAV ARYA (BANGLADESH)	PRASHASTI RASTOGI (DELHI, INDIA)	NITASHA KUMAR (BANGALORE, INDIA)	AASTHA ARYA (FOUNDER, ETALC, INDIA)

			
YOGIRAJ VISHWAPAL JAYANT (FOUNDER GURUKUL KANVE ASHRAM, KOTWAR, INDIA)	VIJAYBHUSHAN ARYA (EX. PRESIDENT KAYP, INDIA)	OM SAPRA (EX. METROPOLITAN MAGISTRATE, INDIA)	DEEPTI SAPRA (CONVENOR)

(5)

SUNDAY, 13th FEBRUARY 2022

SARVA KALYAN YAGYA

09:00 AM TO 10:00 AM (IST)




YAGYA BRAHMA:- ACHARYA GAVENDER SHASTRI JI (DELHI)

INTERNATIONAL ARYA CONFERENCE

ROLE OF ARYA SAMAJ IN PRESENT TIMES

11:30 AM TO 2:00 PM (IST)

			
CHAIRPERSON DR. ASHOK K CHAUHAN (FOUNDER PRESIDENT, AMITY EDUCATIONAL GROUP)	CHIEF GUEST BHUVNESH KHOSLA (PRESIDENT, ARYA PRATINISHI SABHA, AMERICA)	KEYNOTE SPEAKER VISHNU MITRA VEDARTHI (VEDIC SCHOLAR, INDIA)	SPECIAL GUEST KULDEEP RAI OBERIO (PRESIDENT, ARYA SAMAJ, UGANDA)

			
BLESSINGS ANAND CHAUHAN (DIRECTOR, AMITY EDUCATIONAL GROUP)	RAMCHANDRA ARYA (PRESIDENT, YEKI DHARMI SANSTHA, PAKISTAN)	DR. MADHAV PRASAD UPADHYAY (PRESIDENT, NEPAL ARYA SAMAJ)	HARRYDEV RAMDHONI (VICE PRESIDENT, ARYA SAMAJ, MAURITIUS)

				
PREM PRAKASH SHARMA (SECRETARY, TAPOVAN ASHRAM, DEHRADUN)	THAKUR VIKRAM SINGH (FOUNDER, RASHTRIA NIRMAN PARTY)	ARUN BANSAL (CHAIRMAN, BANSAL WIRE)	SANJEEV SETHI (CHAIRMAN, FRONTIER BISCUITS)	S.P. SINGH (EX. PRESIDENT, ARYA SAMAJ BANK)

जहाँ नहीं होता कभी विश्राम, आर्य युवक परिषद है उसका नाम।

(6)

75 भारत अमृत महोत्सव

AZADI KA AMRIT MAHOTSAV

04:00 PM TO 6:30 PM (IST)



SWATANTRATA ANDOLAN MAI ARYA SAMAJ KA YOGDAN

				
CHAIRPERSON DR. ASHISH KHURANA (KHURANA HOSPITAL AND IVF CENTRE, SIRSA)	SPECIAL GUEST DR. SUBHASH SHARMA (AUSTRALIA)	GUEST OF HONOUR ACHARYA SUBHASH SHASTRI (PRESIDENT, ARYA SAMAJ BANGALORE)	KEYNOTE SPEAKER ARYA RAVI DEV GUPTA (DELHI, INDIA)	SPECIAL GUEST SURYA PRASAD BIERE (NETHERLANDS)

SWAR SANGEET:- NARENDER ARYA SUMAN, PINKY ARYA, NARESH KHANNA

BLESSINGS:- R.P. SURI, RAJESH MEHENDIRATTA, DR. VIPIN KHERA, D.P. PARMAR

KAYP MEDIA TEAM

				
PRAVEEN ARYA 9716950820	DEVENDRA BHAGAT 9958889970	ARUN ARYA 9818530543	SAURABH ARYA 9813739000	MADHAV SINGH ARYA 7011641769

DONATE & CONTRIBUTE TO KAYP FOR NOBLE CAUSE

KENDRIYA ARYA YUVAK PARISHAD

ACCOUNT NO: 10205148690

STATE BANK OF INDIA, CLOCK TOWER, DELHI - 110007

IFSC CODE - SBIN0001280

YOU MAY ALSO DONATE via Paytm, Google Pay, Phone Pay on 9958889970

SUBSCRIBE TO OUR QUARTERLY JOURNAL 'YUVA UDGHOSH' (ESTD. 1982)

(7)

KENDRIYA ARYA YUVAK PARISHAD KI SACHITRA JHALKIYAN










‘गणतंत्र ही स्वतंत्रता का मर्म है’ पर गोष्ठी सम्पन्न

शुक्रवार 26 जनवरी 2022, केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के तत्वावधान में गणतंत्र ही स्वतंत्रता का मर्म है विषय पर ऑनलाइन गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कोरोना काल में 344 वां वेबिनार था। वैदिक विद्वान आर्य रविदेव गुप्ता ने कहा कि कोई भी देश तभी गणतंत्र कहा जा सकता है जब उसका अपना संविधान लागू हो यानी अपनी व्यवस्था प्रणाली। राजतंत्र में एक ही राजा का निरकुंश शासन होता है परंतु स्वतंत्र देश में संविधान द्वारा शासन चलाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान लागू किया गया इसलिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान में नागरिकों को 6 मूलभूत अधिकार दिए गए साथ ही 6 मूलभूत कर्तव्य घोषित कर चुनाव प्रणाली विकसित की गई जिससे नागरिकों के मतदान से ही सरकारें बनती हैं। केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य ने कहा कि एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य है कि अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों के पालन में भी अग्रसर हो। मतदान पवित्र अधिकार है सभी को इसका प्रयोग श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। मुख्य अतिथि डॉ. विनोद शर्मा (संपादक, चंडी भूमि) ने अधिकार व कर्तव्यों की सुंदर व्याख्या करते हुए कहा कि दोनों साथ साथ चलते हैं। अध्यक्ष श्री कृष्ण निर्मल (पूर्व शिक्षा अधिकारी) ने भी राष्ट्र व समाज के प्रति कर्तव्य पालन पर जोर दिया। राष्ट्रीय मंत्री प्रवीण आर्य ने कहा कि हमें चरित्रवान, देश भक्त, ईमानदार लोगों को चुनना चाहिए जैसा बोयेंगे वैसा ही तो काटेंगे।

125 वीं जयंती पर नेताजी सुभाष को किया नमन

शुक्रवार 21 जनवरी 2022, केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के तत्वावधान में भारत की आजादी के महानायक—नेताजी सुभाष विषय पर ऑनलाइन गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कोरोना काल में 341वां वेबिनार था। वैदिक विद्वान आचार्य चन्द्रशेखर शर्मा (ग्वालियर) ने कहा कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस भारत की आजादी के महानायक थे। उनका बाल्यकाल, विद्यार्थी जीवन, युवावस्था अर्थात् 48 वर्ष का संपूर्ण जीवन भारत के गौरव, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लड़ाई तथा संघर्ष में दिनरात लड़ते-लड़ते चला गया। 23 जनवरी 1897 जन्म से लेकर 18 अगस्त 1945 तक माँ भारती के गौरव और गरिमा की रक्षा के लिए सतत संघर्षशील रहे। इस 48 वर्ष के जीवन में पल-पल भारत की गुलामी की झंझीरों को तोड़ने के लिए क्रियाशील रहे। उड़ीसा और बंगाल ही नहीं सारा भारत उनका परिवार था। भारत और भारतीयता का अपार प्रेम मन में भरा था। भारतमाता का अपमान सुनना और देखना उनको सहन नहीं था। उनके रग-रग में भारत भक्ति की भावना भरी थी। अपनी उत्कृष्ट एवं विलक्षण मेधाशक्ति से कैंब्रिज में आई. सी.एस. परीक्षा में 1920 में प्रथम श्रेणी के साथ चतुर्थ स्थान प्राप्त करके और सम्मान की नौकरी मिलने पर भी अंग्रेजी दासता स्वीकार नहीं की। उनके जीवन में महाक्रांति की महाज्वाला प्रज्वलित थी। अंग्रेजी सरकार ने जितनी बार कारगार में बंद किया उतनी बार उनकी आन्तरिक ज्वाला महाज्वाला बनकर विद्रोह का विकराल रूप धारण कर लेती थी। जालियावाला बाग हत्या कांड और सरदार भगतसिंह की फांसी की घटनाओं ने सुभाष का खून खौला दिया। उनकी प्रतिशोध की भावना तीव्रतम हो गई। इस महायोद्धा ने 20 वर्ष से अधिक भारत में रहकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और 5 वर्ष से अधिक जर्मनी और जापान में रहकर आजाद हिंद सेना का गठन करके महायोजना और महाशक्ति के साथ षट्पुंज खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो का महानारा दिया था। केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य ने कहा कि नेताजी सुभाष भारत के स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्ण अक्षर हैं उनके बिना आजादी का इतिहास अधूरा है। उनके तप, त्याग, निर्भीकता, संघर्ष, बलिदान से नई युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी की आवश्यकता है। दिल्ली के इंडिया गेट से अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक अमर जवान ज्योति स्थान्तरित करके सराहनीय कार्य किया है यह काम आजाद होते ही हो जाना चाहिए था। कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र गुलामी के चिन्हों को सुरक्षित नहीं रखता। मोदी सरकार ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष की प्रतिमा लगाने का निर्णय सराहनीय कदम है। अध्यक्ष डॉ. रचना चावला ने कहा कि नेताजी सुभाष का जीवन राष्ट्र को समर्पित था। राष्ट्रीय मंत्री प्रवीण आर्य ने कहा कि कोई भी राष्ट्र की नींव उसके नोजवानों के बलिदान पर ही टिकी रहती है।



लोहड़ी व मकर संक्रांति पर गोष्ठी सम्पन्न

वीरवार 13 जनवरी 2022, केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के तत्वावधान में ‘लोहड़ी व मकर संक्रांति’ पर ऑनलाइन गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कोरोना काल में 337 वां वेबिनार था। मुख्य वक्ता दर्शनाचार्या विमलेश बंसल आर्या ने लोहड़ी और मकर संक्रान्ति पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि व्रत, पर्व और उत्सवों का हमारे जीवन में विशेष महत्त्व है जिनको मनाने पर हमारी संस्कृति को अतिरिक्त मजबूती मिलती है तथा सामाजिक समरसता का भाव जागृत होकर संगठन को विस्तार व राष्ट्र को बल मिलता है हमारा देश कृषि प्रधान देश है हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत देश—आर्यावर्त में जन्मे हैं। जहां पर छह ऋतुओं— वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर का रसास्वादन हर दो मास पर हम भारतीयों को प्राप्त होता है। बाकी देशों में इतना अधिक ऋतु परिवर्तन नहीं है। बदलते प्राकृतिक मौसम के अनुसार ही व्रत, पर्व, उत्सवों की भी झड़ी लगी रहती है। दीपावली हो या होली, दशहरा हो या श्रावणी जैसे प्रमुख बड़े मुख्य पर्वों के साथ ही खगोलीय घटना पर आधारित 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पावन, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्व जिसे स्नान, दान, ध्यान, उपासना द्वारा पूरे भारत वर्ष में अलग अलग नामों पोंगल, माघी, लोहड़ी, संक्रांति, बिहू आदि से मनाया जाता है। कम्बल, खिचड़ी, वस्त्र आदि दान में दिए जाते हैं मौसम के अनुकूल ही जरूरतमंद वर्ग को आवश्यक वस्तुएं भी भेंट की जाती हैं ऋतुअनुकूल भोजन का सेवन कर स्वास्थ्य लाभ भी लिया जाता है। और उससे एक दिन पूर्व लोहड़ी का भी प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्व भी प्रतिवर्ष विशेषकर पंजाब में धूमधाम से मनाया जाता है। जिसे मक्का—फूला, तिल, मूगफली आदि से बने व्यंजन रेबड़ी गजक तिल पट्टीआदि सर्दी के नवान्न व्यंजनों द्वारा खड़ी लकड़ियों से आग जलाकर—वृहदयज्ञ करके मनाया जाता है साथ ही भांगड़ा गिद्धा आदि नृत्य करते हुए सुंदरी मुंदरी ओ,, प्रेरक गायन कर परस्पर खुशियों का आदान प्रदान किया जाता है। जिस घर में बहू का आगमन होता है और पुत्र का जन्म होता है उस घर विशेष बड़ा कार्यक्रम किया जाता है। आज आवश्यकता है हम इन पर्वों के भूल चुके वैदिक स्वरूप को समझें, देवपूजा संगतिकरण और दान द्वारा इन पर्वों की महत्ता प्रतिपादित करें, अपनी वैदिक संस्कृति को विस्तार दें, ऐतिहासिक लोक घटनाओं को महत्त्व दे दुल्लाभट्टी की तरह अपनी बहिन बेटियों को लव जिहाद के इस खतरनाक राक्षस से बचा राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करें तभी पर्वों की सार्थकतासिद्ध होगी। केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य ने कहा कि पर्व भारतीय संस्कृति की आत्मा है, भारत पर्वों व ऋतुओं का देश है। हमें नई युवा पीढ़ी को पर्वों से जोड़कर अपनी विरासत की रक्षा करनी चाहिए। मुख्य अतिथि आर्य नेत्री शशि चोपड़ा (कानपुर) व अध्यक्ष शशि कस्तूरिया ने भी भारतीय संस्कृति की महत्ता पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय मंत्री प्रवीण आर्य ने कहा कि हर पर्व कोई न कोई संदेश लेकर आता है बस उसे समझने की आवश्यकता है। गायक रविन्द्र गुप्ता, रचना वर्मा, ईश्वर देवी, रजनी गर्ग, प्रवीणा ठक्कर, रजनी चुघ, प्रतिभा कटारिया, कुसुम भंडारी, रेखा गौतम आदि ने मधुर गीत सुनाये।

